



IRCON/SECY/STEX/124

13th November, 2025

BSE Limited Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 बीएसई लिमिटेड लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001 Scrip code / ID: 541956 / IRCON	National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C-1, G Block, Bandra –Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 Scrip Code: IRCON
--	---

Sub: Publication of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended 30th September, 2025/ 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) का प्रकाशन

Dear Sir/ Madam, महोदय/महोदया

A copy of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended on 30th September, 2025, as approved by the Board at its meeting held on Wednesday, 12th November, 2025, as published in today's newspapers (13th November, 2025) i.e., Financial Express (English edition), The Indian Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) are enclosed herewith for your information and record.

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनौपचारिक वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) की एक प्रति, जिसे बुधवार, 12 नवंबर, 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया था, आज के समाचार पत्रों (13 नवंबर, 2025) में प्रकाशित किया गया है, यानी फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण) और जनसत्ता (हिंदी संस्करण), जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

कृपया उपरोक्त जानकारी रिकार्ड पर ले लें।

धन्यवाद,
भवदीया,

(प्रतिभा अग्रवाल)/ (Pratibha Aggarwal)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी/ Company Secretary & Compliance Officer

सदस्यता क्र./ Membership No.: F8874

Pioneering Efforts by NABARD In Climate Change

National Bank For Agriculture And Rural Development
Head Office: Plot No. C-26, 1st Stock, ISMNH Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. Website: www.nabard.org

Unaudited Standalone Financial Results for the half year ended September 30, 2025

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended			Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	
		[Unaudited]	[Unaudited]	[Unaudited]	[Unaudited]	[Unaudited]	[Audited]	
1	Total Income from Operations	14,339.68	16,027.00	14,612.19	30,396.08	28,637.32	58,424.41	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,949.18	2,919.59	3,011.27	4,868.78	5,455.77	10,154.61	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,949.18	2,919.59	3,011.27	4,868.78	5,455.77	10,154.61	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,453.28	2,177.57	2,253.39	3,630.86	4,082.66	7,628.33	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,453.28	2,177.57	2,253.39	3,630.86	4,082.66	7,628.33	
6	Paid-up share capital	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)						60,985.96	
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9	Net Worth	81,696.81	80,243.53	76,072.30	81,696.81	76,072.30	78,065.96	
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt*	8,07,185.05	8,07,060.53	7,34,863.44	8,07,185.05	7,34,863.44	8,54,578.20	
11	Outstanding Redeemable Preference Share	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
12	Debt-Equity Ratio	9.88	10.06	9.66	9.88	9.66	10.95	
13	Earnings Per Share (EPS)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

NA = Not Applicable

* Paid up Debt Capital / Outstanding Debt includes Outstanding Deposits, Bonds & Debentures and Borrowings

Notes: 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half-yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half-yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com) and on the bank's website (www.nabard.org). The Annual Report is also available on Bank's website which can be accessible through the given QR code.

Place : Mumbai
Date : November 12, 2025

Shaji K. V.
Chairman

गौरव देव >> ती देव बंदे

Taking Rural India >> Forward

TRUALT BIOENERGY LIMITED

One of India's largest biofuels producers

Registered Address: Survey No. 166, Kulali Cross, Jamkhandi Mudhol Road, Bagalkot, Karnataka, India - 587313
Corporate Address: Unit No. N-1501, 15th Floor, World Trade Centre, Brigade Gateway Campus, Rajajinagar, Bangalore - 560055
Tel: +91 80 2325 5000 Email: ir@truallbioenergy.com
Website: www.truallbioenergy.com

Corporate Identity Number: U15400KA2021PLC145978

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on November 11, 2025 approved the unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025 ("Financial Results")

The Financial Results has been hosted on the Company website at <https://www.truallbioenergy.com/investor-relations> and can be accessed by scanning the QR code

For and on behalf of the Board of Directors
TruAlt Bioenergy Limited
Sd/-
Vijaykumar Muruges Niran
Managing Director
(DIN: 07413777)

Date : November 11, 2025
Place : Bangalore

Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise - Navratna)
CIN : L74992DL1995G0181797

1. UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025
2. DECLARATION OF INTERIM DIVIDEND AND
3. FIXATION OF RECORD DATE

The Board of Directors of the Company on the recommendations of the Audit Committee, at its meeting held on November 12, 2025 has approved the Un-audited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025

The aforesaid financial results, along with the Limited Review Report, have been uploaded on the Company's website and websites of BSE and NSE. The same is available at https://www.irctc.com/assets/images/Outcome_of_BOD_12-11-25.pdf and can be accessed by scanning the QR code.

The Board also declared an Interim Dividend of ₹ 5.00 per equity shares for the FY 2025-26. The Company has Fixed Friday, November 21, 2025 as "Record Date" to determine the eligibility of shareholders for the payment of the said Interim Dividend.

For & on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sanjay Kumar Jain
Chairman & Managing Director
Dated: 12th November, 2025 DIN: 09629741

Place: New Delhi

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

IRCTC Limited, 4th Floor, Tower-D, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

IRCON

EXTRACT OF STANDALONE / CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025
(In Crore)

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter ended 30 September, 2025 (Unaudited)	Quarter ended 30 June, 2025 (Unaudited)	Quarter ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2025 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2025 (Unaudited)	Quarter ended 30 September, 2025 (Unaudited)	Quarter ended 30 June, 2025 (Unaudited)	Quarter ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2025 (Unaudited)	Six months ended 30 September, 2024 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2025 (Audited)
Total income from Operations	1,851.53	1,664.19	2,259.86	3,515.72	4,479.34	10,193.14	1,976.75	1,786.28	2,447.52	3,763.03	4,734.65	10,759.58
Net profit / (loss) before tax & exceptional items	226.37	194.55	248.67	420.92	482.98	917.81	172.45	211.53	262.34	383.98	544.15	939.02
Net profit / (loss) before tax & after exceptional items	226.37	194.55	248.67	420.92	482.98	917.81	172.45	211.53	262.34	383.98	544.15	939.02
Net profit after tax	184.67	150.57	202.22	335.24	378.73	737.59	136.51	164.10	205.92	300.61	429.95	727.83
Profit is attributable to :												
Owners of the Parent	184.67	150.57	202.22	335.24	378.73	737.59	136.65	164.56	205.96	303.21	429.97	727.41
Non Controlling Interest	-	-	-	-	-	-	(2.14)	(0.46)	(0.03)	(2.69)	(0.02)	0.42
Total comprehensive income	184.67	150.57	202.22	335.24	378.73	737.59	134.51	164.10	205.92	300.61	429.95	727.83
Equity share capital	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10
Other Equity attributable to Owners of the Parent (Restated) (excluding Revaluation Reserve)						6,049.33						6,080.68 *
Earnings Per Share (Not annualized) (Face Value of ₹2/- each)												
(a) Basic (in ₹)	1.96	1.60	2.15	3.56	4.03	7.84	1.47	1.75	2.19	3.22	4.57	7.73
(b) Diluted (in ₹)	1.96	1.60	2.15	3.56	4.03	7.84	1.47	1.75	2.19	3.22	4.57	7.73

* Restated

Notes:
1. The above standalone and consolidated financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th November 2025. The Statutory Auditors of the company have conducted limited review of the financial results for the Quarter and half year ended 30th Sept. 2025.
2. The Standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
3. The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's website at www.ircon.org.
4. Figures for the previous periods / year have been re-grouped / re-classified / re-casted to conform to the classification of the current period / year.

For and on behalf of Ircon International Limited
Sd/-
Hari Mohan Gupta
Chairman & Managing Director and CEO
DIN: 08453476

Place: New Delhi
Date: 12th November, 2025

IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(A Government of India Undertaking)

Registered Office: C-4, District Centre Saket, New Delhi-110017; Tel: +91-11-26538286; Fax: +91-11-26522000/26864008
E-mail: investors@ircon.org; Website: www.ircon.org; Corporate Identity Number: L45203DL1976G018171

Phansigar has nothing to do with functioning of Assembly, Kejriwal tells HC

Sohini Ghosh
New Delhi, November 12

A 'PHANSIGAR' (or gallow house) is not essential for the functioning of the Delhi Legislative Assembly, AAP national convenor and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said. He also held several portfolios in the previous AAP government, told the Delhi High Court on Wednesday. The remarks came in response to the Privilege Committee Summons over the matter. The AAP leaders are expected to appear before the committee on Thursday.

"What has this phansigar got to do with legislative functioning of the House? Nothing...If you (Assembly) had not reserved a plan in the earlier Assembly to continue with this, you can't now...The (preceding) House (led by AAP) is gone, it can't be done, there was no pending motion," senior advocate Shashin Farasi, appearing for the AAP leaders, submitted before Justice Sachin Datta of the High Court on Wednesday. The committee has sought the AAP leaders' appearance before it for verifying the "authenticity" of the structure.

In 2022, Kejriwal, the then CM of Delhi, had inaugurated a structure on the Assembly premises, which was claimed to be a British Raj-era execution chamber or phansigar. However, a political row broke out this year in August related to the structure when BJP MLA and Assembly Speaker Vijender Gupta told the House that the structure was actually a "tiffin room" as per records. Chief Minister Rekha Gupta had accused the AAP government of misleading people as the row escalated. Historians have termed it to be "unlikely" that the two rooms in the Assembly building, which were renovated in 2022, were a phansigar.

During the hearing on Wednesday, senior advocate Jayant Mehta, appearing for the Assembly and the Privilege Committee countered the AAP leaders, saying that the petition is "preconceived" and is a "classic case of jumping the gun".

Arguing that the notices issued is not one for breach of privilege and is rather for "assisting the committee to ascertain the authenticity of the phansigar and giving those facts to the committee," Mehta asserted that it is "only a factual inquiry".

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH PUNE
(An Autonomous Institution of the Ministry of Education, Govt. of India)
Dr. Hori Bhatia Road, Pune 411008 | Website: www.iiserpune.ac.in

Admission to Research Programme in Data Science Department-January 2026

IISER Pune invites online applications for admission to the PhD programme in Data Science department for the January 2026 session.

Details of eligibility and application procedure are available at: <https://www.iiserpune.ac.in/education/admissions>

त्रिपुरा विश्वविद्यालय
TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University), TRIPURA (U), PIN / P.O. - 799022

S. No. TULBHEKAR/2025 Expression of Interest (EOI) for Date: 12.11.2025
engagement with the University for the supply of Print Books, Print Journals and other associated Information Resources to the Central Library, Tripura University

Tripura University invites Expressions of Interest (EOI) from reputable vendors, publishers and booksellers for engagement as authorized suppliers. The engagement is intended for the supply of print books, print journals and other associated information resources to the Central Library.

For detailed information and submission guidelines, please visit the official website of Tripura University: www.tripurau.ac.in (URL: Hand version is available at T.U. website)

Sd/- (Pranay Pall, Assistant Registrar (Finance))

MIT-WPU **MIT WORLD PEACE UNIVERSITY** **Ph.D. Admissions Open for 2025-26 Spring Semester**

A University for Life Transformation

MIT-WPU, Pune is looking for bright and dedicated candidates interested in research to join as Full-Time/Part-Time Ph.D. scholars for the academic year 2025-26, Spring semester. Full time Ph.D. scholars will get Stipend of Rs. 31,000/m for initial two years and Stipend of Rs. 35,000/m for next two years*

MIT-WPU also offers the following Ph.D. programmes in association with Automotive Research Association of India (ARAI)

- Civil Engineering
- Computer Engineering
- Mechanical Engineering
- Electronics & Communication Engineering
- Chemical Engineering
- Petroleum Engineering
- Bioengineering
- Biomedical Engineering
- Business Administration
- Management
- Commerce
- Economics
- Mathematics
- Statistics
- Biotechnology
- Physics
- Chemistry
- Environmental Sciences
- Pharmaceutical Sciences
- Biochemistry
- Microbiology
- Visual Arts
- English
- Education
- Law
- Consciousness Studies
- Peace Studies

Candidates with relevant automotive domain experience are encouraged to apply.

Eligibility, Selection criterion, Reservation and Relaxations as per UGC norms Apply Online on or before 30th Nov 2025.

Phone: 020-71771737 | WhatsApp App: 9831492848 | Mail id: admissions@mitwpu.edu.in
Website: mitwpu.edu.in | Address: MIT-WPU, Paud Road, Kothrud, Pune, Bharat



Pioneering Efforts by NABARD In Climate Change

National Bank For Agriculture and Rural Development
Head Office: Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400050. Website: www.nabard.org

Unaudited Standalone Financial Results for the half year ended September 30, 2025

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended			Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	14,339.08	16,057.00	14,612.19	30,396.08	28,637.32	58,424.41	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,949.18	2,919.59	3,011.27	4,868.78	5,455.77	10,154.61	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,949.18	2,919.59	3,011.27	4,868.78	5,455.77	10,154.61	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,453.28	2,177.57	2,253.39	3,630.86	4,082.66	7,628.33	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,453.28	2,177.57	2,253.39	3,630.86	4,082.66	7,628.33	
6	Paid-up share capital	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)						60,985.96	
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9	Net Worth	81,696.81	80,243.53	76,072.30	81,696.81	76,072.30	78,065.96	
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt*	8,07,185.05	8,07,060.53	7,34,863.44	8,07,185.05	7,34,863.44	8,54,578.20	
11	Outstanding Redeemable Preference Share	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
12	Debt-Equity Ratio	9.88	10.06	9.66	9.88	9.66	10.95	
13	Earnings Per Share (EPS)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

NA = Not Applicable

* Paid up Debt Capital / Outstanding Debt includes Outstanding Deposits, Bonds & Debentures and Borrowings

Notes: 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half-yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half-yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com) and on the bank's website (www.nabard.org). The Annual Report is also available on Bank's website which can be accessible through the given QR code.

Place : Mumbai

Date : November 12, 2025

Shaji K. V.
Chairman

गौरव >> तो देश बड़े >> [/nabardonline](https://www.nabardonline.in) Taking Rural India >> Forward

PUBLIC NOTICE TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This notice is being issued by the General Atlantic Group (GAG), a leading global investor having its office in India at Level 19, Birla Aurora, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030.

By this notice GAG cautions the general public that certain unknown individuals and, or agencies (persons) are attempting to mislead the public by wrongfully representing themselves to be part of, and, or, associated with GAG in India.

These persons are using the logos of GENERAL ATLANTIC and GENERAL ATLANTIC, trademarks, and likeness of GAG to falsely advertise and offer fraudulent financial schemes and investment opportunities to the general public, including a scheme titled "General Atlantic Stock Trading Group" on WhatsApp, via at least 6 WhatsApp groups.

These persons have, amongst other things, set up fraudulent trading platform(s), application called "GenAEX", and website(s) including www.genalex-pro.org. These are entirely fraudulent ventures which are neither authorized by nor have any association with GAG.

GAG does not solicit investments from the general public and recommends that no one should respond to any such solicitations. Any person who engages or transacts with such persons in any manner does so at their own risk. GAG will not accept any liability whatsoever for any loss that you may incur owing to transactions made with such unknown persons.

GAG has so far identified the following mobile numbers which are known to be involved in this fraud:

- +91 8148694659
- +91 9514766218
- +91 7431919945
- +91 9383148849
- +91 8044566491
- +91 9078543019
- +91 9369510779
- +91 9369901899
- +91 8097115257
- +91 8972239585
- +91 9218609862
- +91 9553808073
- +91 9556247988
- +91 8967200130
- +91 7366819120
- +91 8535829630

This list is indicative and there may be more persons who are involved in this fraud. In case you happen to encounter any person(s) offering such schemes by impersonating a representative of the GAG or come across any such fraudulent activity you may write to us at legal@generalatlantic.com and review <https://www.generalatlantic.com/security-and-fraud-awareness/> for more details.

Date: November 12, 2025

Sd/-
For the General Atlantic Group

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise - Navratna)
CIN : L74999DL1999GOI010707

1. UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025 2. DECLARATION OF INTERIM DIVIDEND AND 3. FIXATION OF RECORD DATE

The Board of Directors of the Company on the recommendations of the Audit Committee, at its meeting held on November 12, 2025 has approved the Un-audited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025

The aforesaid financial results, along with the Limited Review Report, have been uploaded on the Company's website and websites of BSE and NSE. The same is available at https://www.irctc.com/assets/images/Outcome_of_BOD_12-11-25.pdf and can be accessed by scanning the QR code.



The Board also declared an Interim Dividend of ₹ 5.00 per equity shares for the FY 2025-26. The Company has Fixed Friday, November 21, 2025 as "Record Date" to determine the eligibility of shareholders for the payment of the said Interim Dividend.

For & on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sanjay Kumar Jain

Place: New Delhi Chairman & Managing Director
Dated: 12th November, 2025 DIN: 09629741

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

IRCTC Limited, 4th Floor, Tower-D, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

ircon

EXTRACT OF STANDALONE / CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025 (In Crore)

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter ended 30 September, 2025	Quarter ended 30 June, 2025	Quarter ended 30 September, 2024	Six months ended 30 September, 2025	Six months ended 30 September, 2024	Year ended 31 March, 2025	Quarter ended 30 September, 2025	Quarter ended 30 June, 2025	Quarter ended 30 September, 2024	Six months ended 30 September, 2025	Six months ended 30 September, 2024	Year ended 31 March, 2025
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations	1,851.53	1,664.19	2,298.86	3,515.72	4,479.34	10,193.14	1,976.75	1,786.28	2,447.52	3,763.03	4,734.65	10,759.58
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items)	226.37	194.55	248.67	420.92	482.98	917.81	172.45	211.53	262.24	383.98	544.15	939.02
Net profit / (loss) (before tax & after exceptional items)	226.37	194.55	248.67	420.92	482.98	917.81	172.45	211.53	262.24	383.98	544.15	939.02
Net profit after tax	184.67	150.57	202.22	335.24	378.73	737.59	136.51	164.10	205.92	300.61	429.95	727.83
Profit is attributable to:												
Owners of the Parent	184.67	150.57	202.22	335.24	378.73	737.59	136.51	164.56	205.95	303.21	429.97	727.41
Non Controlling Interest	-	-	-	-	-	-	(2.14)	(0.46)	(0.03)	(2.60)	(0.02)	0.42
Total comprehensive income	187.82	150.77	201.34	337.99	378.18	743.13	139.67	163.70	205.92	303.37	429.98	733.32
Equity share capital	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10
Other Equity attributable to Owners of the Parent (Restated) (Excluding Revaluation Reserve)						6,049.33						6,080.68 *
Earnings Per Share (Not annualized) (Face Value of ₹20 each)												
(a) Basic (in ₹)	1.96	1.60	2.15	3.56	4.03	7.84	1.47	1.75	2.19	3.22	4.57	7.73
(b) Diluted (in ₹)	1.96	1.60	2.15	3.56	4.03	7.84	1.47	1.75	2.19	3.22	4.57	7.73

* Restated

Notes:

1. The above standalones and consolidated financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th November 2025. The Statutory Auditors of the company have conducted limited review of the financial results for the Quarter and half year ended 30th Sept, 2025.

2. The Standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

3. The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's website at www.ircon.org.

4. Figures for the previous periods / year have been re-grouped / re-classified / re-casted to conform to the classification of the current period / year.



Place: New Delhi
Date: 12th November, 2025

For and on behalf of Ircon International Limited

Sd/-
Hari Mohan Gupta

Chairman & Managing Director
DIN: 0146453476

IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(A Government of India Undertaking)

Registered Office: C-4, District Centre Saket, New Delhi-110017. Tel: +91-11-26530266. Fax: +91-11-26522000/26544000
E-mail: investors@ircon.org Website: www.ircon.org Corporate Identity Number: L45203DL1976GD000171

